



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

ਜੀਅ ਉਠਦਾ ਪ੍ਰਭੂ — ਸਟ੍ਰਾਂਗਿਸ ਨੰਬਰਾਂ ਸੈਥ ਏਕਕ ਬਾਇਬਲ ਅਧਯਨ

ਕ੍ਰਿਸ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰ ਵਾਪਸੀ — ਕੀਉਂ ਮਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਥਾ, ਅਰ ਅਗੇ ਕੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਾਇਬਲ ਸਿਫ਼ਤਾਂ — ਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ ਰਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ

ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਬਦ

ਯੀਸ਼ੁ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕੀਉਂ ਜਰੂਰੀ ਥਾ? ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਨੈ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ? ਜੇਹੜੇ ਬੇਲੈ ਉ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਂਦਾ ਏ? ਏਹ ਅਧਯਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਬਲ ਕੋਲ ਲੇਝੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਬਾਇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਦਿੰਦਾ ਏ।

ਏਹ ਅਧਯਨ ਇਸ ਗਲਲ ਤੈਂ ਫਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਬਹਾਯਾ ਪੇਯਾ। ਏਹ ਅਧਯਨ ਇਸ ਗਲਲ ਤੈਂ ਫਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓ ਕਿਤ੍ਹਾਂ ਤਕ ਹੇਠ ਆਯਾ, ਤੇ ਸੂਲੀ ਨੈ ਉਸਤੈਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲਾਝੀ। ਏਹ ਅਧਯਨ ਇਸ ਗਲਲ ਤੈਂ ਫਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁਤ੍ਰ ਤੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਅਧਯਨ ਇਸ ਗਲਲ ਤੈਂ ਫਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਜਿਨੀ ਦਾਵੂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਂ ਗਲਲ ਕੀਤੀ। ਏਹ ਅਧਯਨ ਇਸ ਗਲਲ ਤੈਂ ਫਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮ੍ਰਿਤ੍ਯੁਆਂ ਮਾਂਤੋ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਂ ਓਨੀ ਬਚਾਯਾ। ਏਹ ਅਧਯਨ ਉਸਦੇ ਸੁਝੀ ਆਯੋਂ ਤੈਂ, ਤੇ ਓਸ ਚੋਯੋਂ ਤੈਂ ਫਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਤਾਂਝੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

1. ਯੀਸ਼ੁ ਦੀ ਮੌਤ ਲਹੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਜੋ ਹੋਈ ਥੀ, ਕੋਝੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕਜੋ ਨਝੇ?
2. ਦਾਵੀਦ ਅਪਣੇ ਹੀ ਪੁਤ੍ਰ ਗੀ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 110:1 ਚ ਆਖੀ ਸਕਦਾ ਹਾ?
3. ਪੁਨਰੁਠਾਨ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਨੇ ਜੇਬੇ ਯੀਸ਼ੁ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀਆ ਹੋਣਾ?

ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ

1 ਤੀਮੁਥਿਯੁਸ 2:5 ਕਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਕ ਈਏ ਐਓਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਓਰ ਮਾਂਘੂਆ ਭੀਚੇ ਭੀ ਏਕ ਈ ਬਚੋਲਾ ਏ, ਮਤਲਬ ਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ, ਜੋ ਏਕ ਮਾਂਘੂਏ ਰੇ ਰੂਪੋ ਰੇ ਪੈਦਾ ਊਆ। (6) ਤਿਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੂ ਖੇ ਸਬੀ ਖੇ ਚੁਝਾਯੋਂ ਰੇ ਦਾਮੋ ਰੇ ਦੇਝੇਤਾ। ਏ ਸੇਝੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੇ ਦੁਨਿਆ ਰੇ ਲੋਕਾ ਖੇ ਠੀਕ ਬਖਤੋ ਪਾਂਦੇ ਦੇਝੇਤਾ।

ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ + ਏਕ ਬਿਚੋਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮੈਂਘੂਆਂ ਦੇ ਬਿਚ, ਮੈਂਘੂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੁ।

(ਮੇਰੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ: ਏਕ ਮਧਥ (ਜੋ ਦੋ ਅਲਗ ਹੋਝੇ ਗਿਰੀ ਪਾਰਟਿਆਂ ਗੇ ਭੀਚ ਖੜੋਝੇ ਕਰੀ ਉਨਾ ਦੁਝਾਂ ਗੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਾਯੋਂ ਲੇਝੇ) ਦੁਝਾਂ ਪਾਰਟਿਆਂ ਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਏ, ਨੀਂ ਤਾਂ ਓਹ ਮਧਥ ਨੀਂ ਬਯੀ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ 1 ਤੀਮੁਥਿਯੁਸ 2:5 ਮੇਂ ਮਧਥੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖੇਆ ਏ: "ਮਨੁਖ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੁ।" ਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ ਗਾ ਮਨੁਖ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਏ, ਨੀਂ ਤਾਂ ਓਹ ਵਟੀ ਨੀਂ ਖੜੋਝੇ ਸਕਦਾ ਜਿਥੇ ਮਨੁਖ ਖੜੋਝੇ ਨ ਤੇ ਮਾਨਵੀਯ ਮੌਤ ਨੀਂ ਮਰੀ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ 2 ਕੁਰਿਨਥਿਯੋਂ 5:19 ਮੇਂ ਕੀ ਸਚ ਲਿਖੇਆ ਏ ਜੇਹੜਾ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾ: "ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਸੀਹ ਚ ਥਾ।" ਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ ਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਏ, ਨੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਿਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਮਨੁਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਂਦੀ, ਜੇਹੜੀ ਕੀਸੀ

गे लेई कोई उद्धार (पाप ते पाप दी सजा थमां छुटकारा) नीं दिंदी। इसी लेई "यीशु कुण ऐ" दा जवाब सिर्फ विद्वानां लेई इक बगली सवाल नीं ऐ। उद्धार दा सारा सिद्धांत उस सवाल दे जवाब पर निर्भर करदा ऐ।)

H. मौत ऐसी क्यांगा होणी जरूरी थी — परमेश्वरा ताई वापस जाणे रा पुल

H1. समस्या, सिद्धे तरीके कन्नै बोलेरी

Isaiah 59:2

तुहाड़े पापां तुसां ते तुहाड़े परमेश्वरा बिचाळे अलग करी दिता ऐ।

रोमियों 3:23 कऊँकि सबी पाप करी राखेया और परमेशरो री महिमा ते दूर ऊईगे रे।

कऊँकि सबी पाप करी राखेया और परमेशरो री महिमा ते दूर ऊईगे रे.

H2. लहू ही कजो, कोई सोखा चीज़ कजो नीं

इब्रानियों 9:22 मूसे रा बिधानो रे मुताबिक जादातर सारी चीजा खूनो रे जरिए शुद्ध कितिया जाओ थिया और बिना खून बाहए पापो री माफी नि ओ थी। [G859 aphesis ■]

लहू बगर कोई माफी नीं होंदी।

Leviticus 17:11

मासा दी जिन्दगी लहए च ऐ --> लहुई ऐ जेहड़ा जानां आस्तै प्रायश्चित करदा ऐ।

इब्रानियों 10:4 कऊँकि ये ऊई नि सकदा कि जानवरा रा खून पापो खे दूर करो।

कऊँकि ये ऊई नि सकदा कि जानवरा रा खून पापो खे दूर करो.

(मेरे निजी विचार: ई तीनों आयतां गी साथे रखो तो सारी पुराणी बलिदान व्यवस्था अपने आपै समझी जां। जिंदगी लौह मां ऐ। पाप री कीमत जिंदगी होंदी ऐ। पुराणे बखत च, पशु बलिदान प्रायश्चित (पाप गी अस्थायी ढकाव जेह मनुक्खा गी परमेश्वरा सामणे अपनी हैसियत वापस दिदा हा) दिन-ब-दिन, सौआं सालां तक दिंदे रे। इब्रानियों साफ-साफ बतांदी ऐ कि पशु बलिदान कदी पाप गी हटा नी सकदे हे। तो फिर ओह सारे पशु बलिदान केह वास्ते हे? पशु बलिदान पाप रे कर्जे गी नजरा च अणपुरे रखदे हे। पशु बलिदान इक लंबी, बार-बार होणे वाली, रोजाना याद हा कि इक जिंदगी देणी बणदी ऐ। पशु बलिदान ई याद गी तिकर तक टिकाई रखदे हे जिकर तिकर उस इक मौता ने जो पाप रा कर्जा पूरा-पूरा चुका सकदी ही।)

H3. उ कथगा हेठाँ आया

फिलिप्पियो 2:5 जेड़ा यीशु मसीह रा सबाओ था, तियाँ ई तुसा रा सबाओ बी एकी-दूजे साथे ऊणा चाइयो। (6) हालाँकि मसीह सच्ची परमेश्वर था तेबे बी तिने लोक एसा गल्ला खे मजबूर नि किते कि सेयो तेस साथे परमेश्वरो जेड़ा बर्ताव करो, (7) बल्कि आपणे आपू खे एड़ा शून्य करी ता और दासो जेड़ा बणीगा और माँणए जेड़ा ऊईगा। (8) और माँणए रे रूपो रे आयी की आपू खे दीन कितेया और से आपणी मौता तक आज्ञाकारी रया, एथो तक कि तिने कूसो पाँदे दर्दनाक मौत बी सईन करी ली।

परमेश्वरे दे रूपे च होई करी भी --> अपने आप कू दास दे रूपे च करी दिता --> मौत तगर, हां, कूसे दी मौत तगर आज्ञाकारी रेहा।

(मेरे निजी विचार: फिलिप्पियों 2:6-8 च उतरने दे क्रम गी दिक्खा। यीशु परमेश्वर दे रूप च था। यीशु आहपणी ख्याति थमां खाली कीता गेआ। यीशु सेवक दा रूप लैता। यीशु माहणुआं दी समानता च आया। यीशु नम्र होया। यीशु आज्ञाकारी होया। यीशु मरया। पौलुस फही दो होर शब्द जोड़े जेहड़े वाक्य गी सख्ती कन्नै जरूरत नीं थे: "यां तिकर जे कूस दी मौत तक।" सिर्फ एह बोलना जे यीशु मरया, पौलुस आस्तै काफी नीं था। यीशु दी मौत दा खास तरीका पौलुस दी गल्ल दा इक हिस्सा ऐ।)

H4. उसजो असली में की कीमत चुकाणी पड़ी — पैह्ले बोलेया गया, ते बाद च फिरी बोलेया गया

Isaiah 50:6

मैं अपनी पीठ मारने वालयां गी दे दिन्ती --> मैं अपना मुँह शरम ते थूकणे थमां नीं छुपाया।

Psalms 22:16

उन्हां मेरे हत्थां ते पैरां छेदे --> उ मेरे कपड़े अपसा-आपसा च बंडदे न, ते मेरे वस्त्रा पर पासा सुट्टे न।

मत्तीए रा सुसमाचार 27:35 तेबे तिने यीशु कूसो पाँदे चढ़ाई ते और चिट्ठिया पाई की तिना रे टाले बांडी ते

उना उसगी सूली पर चढ़ाया, ते ओहदे कपड़यां गी बंडा, पर्ची पाइयां --> ताएं जो ओह पूरा होई सके।

यूहन्ना 19:34 पर सिपाईया बीचा ते एकी जणे एक बड़छा बखिया रे कुसाया और तेते बीचा ते तेबुई खून और पाणी निकलेया।

एक भाले ने उसकी बगल छेदी --> तुरंत उसमें से लोहू ते पाणी निकल आया।

(मेरे निजी विचार: दाऊदे भजन 22 च छेदे दे होए हथ कने पैर बारे लिखेया। दाऊदे भजन 22 च सिपाहियां दा कपड़े बंडना बारे लिखेया। दाऊदे एह गल्ल इस्राएल च केसी बी सूली चढ़ाणा देखणे थमां हजार साल पैह्ले लिखी। दाऊद अपने उप्पर होई कोई गल्ल नि बताआ करदा हा। मत्ती सदियां बाद, यीशुए दी सूली चढ़ाई होणे दे बाद लिखेया। मत्ती लिखदा जे सिपाहियां ठीक उसी करेया जिह्वा भजन 22 च दस्सेया गया हा। मत्ती दस्सदा जे सिपाहियां एह कजो

करेया: "ताकि पूरा होऐ।" दोनों बयान गिच्चे पढ़ो। दाऊदे अपणा बयान अगो दे बकत बल्ल देखदे होई लिखेया, बगैर एह जाणे जे सूली चढ़ाई कदी होणी। मती अपणा बयान सूली चढ़ाई बल्ल पिच्छे देखदे होई लिखेया, बगैर एह मुकरने जे सूली चढ़ाई होई ही।)

H5. सै मौत केहू लेई थी — एक पुल, न कि एक त्रासदी

रोमियों 5:8 पर जेबे आसे पापी ई थे, तेबुई मसीह आसा री खातर मरेया। इजी ते परमेशरे आसा रिया तंई आपणे प्यारो रा सबूत दितेया। **[G2644 katallasso ■]** (9) जे आसे मसीह रे खूनो रे जरिए तर्मी ठराई राखे, तो आसे पक्का ई मसीह रे जरिए परमेशरो रे रोषो ते बची जाणे। (10) जेबे आसे परमेशरो रे बैरी ई थे तो तेसरे पुत्रो री मौत ऊणे रे जरिए आसा रा मेल परमेशरो साथे ऊआ, तेबे मेल ऊई जाणे पाँदे, तेसरे जीवनो री बजअ ते आसा उद्धार कऊँ नि पाणा?

जिसलै अस्सां हाल्ला पापी थे, मसीह अस्सां खातरा मरा --> अस्सां उसदे पुत्रे दी मौता राहें परमेश्वरे साथ मेल-मिलाप कराए गो।

2 कुरिनथियों 5:18 ये सब गल्ला परमेशरो री तरफा ते ए, जिने मसीह रे जरिए आपू साथे आसा रा मेल-जोल करी ता और मेल-जोलो री सेवा आसा खे सम्बाली ती री। **[G2643 katallage ■]** (19) मतलब-परमेशरे मसीह रे ऊई की आपणा दुनिया साथे मेल-जोल करी ला और लोका रे पापो रा दोष, तिना पाँदे नि लगाया और परमेशरे मेल-जोलो रा संदेश आसा गे सम्बाली ता रा। (20) आसे मसीह रे राजदूत ए, मानो परमेशर आसा रे जरिए लोका ते आपणा संदेश मानणे खे बिनती करने लगी रा। आसे मसीह री तरफा ते बिनती करूँ कि परमेशरो साथे मेल-जोल करी लो। (21) मसीह निष्पाप था, पर परमेशरे आसा खे तेसरे पापिए जेड़ा बर्ताव कितेया ताकि आसे मसीह रे ऊई की परमेशरो री धार्मिकता बणी जाऊँ।

परमेश्वर मसीह च था, ते संसारो जो अपने कन्ने मेल करा दा था --> उनी उसजो जो पापे जो नी जानदा था, म्हाड़े ताई पाप बणाई दित्ता।

एच6. खम्बे उप्पर सप्प — पुराणा चित्र जेहड़ा उनी अपने आपे उप्पर लागू कीता

Numbers 21:8

जेहू कोई भी लड़ेआ था, जेहू उस पर नजर मारदा था, सो जीन्दा रेंदा था।

बरखरा नजरिया, इक्को दृश्य — मरुस्थले च खम्भा, ते पहाड़िया पर सलीब

यूहन्ना 3:14 और जेते टंगो रे मूसे जंगलो रे पीतलो रा साप ऊच्चे पाँदे चढ़ाया था, तियाँ ई जरूरी ये कि आँऊ माणूं रा पुत्र बी ऊच्चे पाँदे चढ़ाया जाओ। (15) ताकि जो कोई मां पाँदे विश्वास करो, से अनन्त जीवन पाओ। (16) “कऊँकि परमेशरे दुनिया रे लोका ते एड़ा प्यार कितेया कि तिने आपणा एकलौता पुत्र देईता, ताकि जो कोई तेस पाँदे विश्वास करो, से नाश नि ओ, पर अनन्त जीवन पाओ। (17) परमेशरे आपणा पुत्र दुनिया रे इजी खे नि पेजेया कि से दुनिया पाँदे दण्डो री आज्ञा देओ, पर इजी खे कि दुनिया रे लोक तेसरी बजअ ते उद्धार पाओ।

और जेते टंगो रे मूसे जंगलो रे पीतलो रा साप ऊच्चे पाँदे चढ़ाया था, तियाँ ई जरूरी ये कि आँऊ माणूं रा पुत्र बी ऊच्चे पाँदे चढ़ाया जाओ --> ताकि जो कोई मां पाँदे विश्वास करो.

(मेरे निजी विचार: गिनती 21 ते यूहन्ना 3 दे बीच एह जोड़ इस अध्ययन ने नीं बणाया। यीशु रे खुद इस जोड़े गी सीधे ते खुल्लम-खुल्ला अपणी पछाण दे बारे च दस्सेया। रेगिस्तान च मरा करदे लोकां गी अपने-आप गी ठीक करने गी नीं बोलेया गया था। रेगिस्तान च मरा करदे लोकां गी बहादुर बनने गी नीं बोलेया गया था। रेगिस्तान च मरा करदे लोकां गी इलाज कमाने गी नीं बोलेया गया था। रेगिस्तान च मरा करदे लोकां गी बोलेया गया था कि जिहड़ा परमेश्वरे खम्बे पर उच्चा कीता, उस पासे देखो। रेगिस्तान च मरा करदे जिहड़े लोकें देखेया, सै जीऊई गे। हुण दुइयां दृश्यां गी कठे रक्खो ते ओह अजीब गल्ल नोटिस करो। खम्बे पर उच्चा कीता गया कांसे दा सप उसी चीज दे रूप च था जिहड़ी उना लोकां गी मारा करदी थी जिहड़े उस पासे देखदे थे। पौलुस सूली दे बारे च इक इसी अजीब सच्चाई दस्सदा है। पौलुस बोलदा है कि यीशु साढ़े लेइ पाप बणाया गया, हालांकि यीशु कोई पाप नीं जानदा था (2 कुरिनथियों 5:21)। इलाज उसी रूप च उच्चा कीता गया जिस रूप च श्राप था।)

I. पिता आपू पुत्रे जो "परमेश्वर" कने "प्रभु" बोलदा छ

I1. इब्रानियों 1:1 पुराणे जमाने रे परमेशरे बाप-दादेया साथे कई बार लग-लग तरीके ते भविष्यबक्तेया रे जरिए गल्ला कितिया। (2) पर इना आखरी दिना रे परमेशरे आसा साथे पुत्रो रे जरिए गल्ला कितिया। परमेशरे आपणे पुत्रो रे जरिए ई सारी सृष्टि रची और सेई सारी चीजा रा बारस ठराया। (3) पाऊ ई परमेशरो री महिमा रा प्रयासा ए। से तेसरे तत्वो री छाया ए। सेई सब चीजा खे आपणी सामर्थी रे वचनो साथे सम्बाली राखोआ; से पापो खे तोई की स्वर्गो रे परमेशरो रे दाँणे कनारे जाई की बैठेया

उत्रे आसां सी अपने पुत्रे राहीं गल्ल कित्ती + जिसदे जरिये उत्रे दुनिया भी बणाई --> जेहड़ा उंदी महिमा दा प्रकाश ऐ, तिं उंदे व्यक्तित्वे दी सच्ची छाप।

I2. इब्रानियों 1:5 परमेशरे कदी आपणे केसी बी स्वर्गदूतो खे ये नि बोलेया, “तूँ मेरा पुत्र ए, आज आँऊ ए एलान करूँआ कि तूँ मेरा पाऊ ए।” और फेर तिने केसी बी स्वर्गदूतो खे ये नि बोलेया, “आऊँ तेसरा पिता ऊणा और से मेरा पाऊ ऊणा।”

[G4416 prototokos ■] (6) जेबे परमेशरे आपणा आदरणीय पाऊ दुनिया रे पेजेया तो से बोलोआ, “परमेशरो रे सारे स्वर्गदूता तेसगे माथा टेकणा।”

परमेशरे कदी आपणे केसी बी स्वर्गदूतो खे ये नि बोलेया, “तूँ मेरा पुत्र ए? --> परमेशरो रे सारे स्वर्गदूता तेसगे माथा टेकणा.

(मेरे निजी विचार: इब्रानियों किताबा दा पूरा पैहला अध्याय इक लंबी दलील बनांदा है। ओह दलील ऐह है कि पुत्र कोई देवदूत नीं है ते कदी नीं था। इस गल्ल पर ध्यान देना जरूरी है इक ऐसे अध्ययन च जित्यै हुण-हुण “यहोवा दे दूत” नांआं दी शख्सियत पर बड़े पन्ने खर्च होए न। इब्रानी शब्द मलाक इक

काम-कार गा नां देंदा है। परमेश्वरे दे अपने पुत्रे ऐह काम-कार पुराणे नियम च कदी-कदी करेया। पर इब्रानियों किताबा दा लिखणआळा कतई नीं चांहदा कि कोई पुत्रे नू पैदा कीते गेए देवदूतां च गिणे। देवदूतां नू पुत्रे दी पूजा करने गी बोलेया गया है।)

I3. इब्रानियों 1:8 पर पुत्रो रे बारे रे बोलोआ, “ओ परमेश्वर, तेरा सिंहासन जुगो-जुगो तक रणा। तेरे राज्य रा राजदण्ड न्याय रा राजदण्ड ए। (9) तैं तर्मो खे प्यार और बुरे कामा साथे बैर राखेया; इजी खे बजअ ते परमेश्वर, तेरे परमेश्वरे तेरे साथिया ते बड़ी की खुशिया रे तेलो साथे तेरा अभिषेक कितेया।” (10) से आपणे पाऊए ते ये बी बोलोआ, “ओ प्रभु! शुरूओ रे तैं तरतिया री निऊँ राखी और स्वर्ग तेरे आधो री कारीगिरी ए। (11) सेयो तो नाश ऊई जाणे, पर तूँ बणे रा रणा और सेयो सब टालेया जेड़े पुराणे ऊई जाणे। (12) तां सेयो पट्टुए जेड़े लपेटणे और सेयो टालेया जेड़े बदली जाणे, पर तूँ नि बदलणा और तेरे सालो रा अंत नि ऊणा।”

पुत्रे जो से बोलदा ऐ, तेरा सिंहासन, हे परमेश्वरा, युगा-युगा तगर ऐ --> तूं, प्रभु, शुरूआता च धरतिया दी नीह रक्खी।

(मेरे निजी विचार: इब्रानियां 1:8 दे पैह्ले पंज शब्द फेरी पढ़ो: "पर पुत्रे दे बारे च ओह बोलदा ऐ।" एह वाक्य इब्रानियां किताबे लिखणे आळे दी यीशुए बारे कोई राय नी ऐ। एह वाक्य परमेश्वर पिताएं दी सीधी पुत्रे कन्नै गल्लबात दर्ज करदा ऐ। परमेश्वर पिता पुत्रे जो "हे परमेश्वर" बोलदा ऐ। फेरी परमेश्वर पिता पुत्रे जो "प्रभु" बोलदा ऐ। फेरी परमेश्वर पिता पुत्रे जो धरती ते आसमानां बणाणे दा श्रेय दिन्दा ऐ। जेकर कोई माणु एह दलील देणा चांहदा ऐ जे पुत्रे जो कदी भी शास्त्रां च परमेश्वर नी बोलेया गया, तां उस माणुऐ इस आयतें जो जरूर संबोधित करना पौगा, जित्थू पिता पुत्रे जो परमेश्वर बोलदा ऐ।)

अलग नजरिया, ओह्ही दृश्य — इक राजा वास्ते लिखा गीत, अते पिता आपणे पुत्र कू ओह्ही गल्ल सुणादा

Psalms 45:6

हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सदा तगर ऐ --> हे परमेश्वर, तेरे परमेश्वरे तिजी अपने साथियां थमां बढ़ी आनन्दे दे तेले कन्नै अभिषेक कित्ता ऐ।

Psalms 102:25

पुराणे बकते तूं धरतिया दी नीह रक्खी --> तूं वेई से, ते तेरे साले कदी खत्म नी होणे।

(मेरे निजी विचार: एह एक असयां जगा ऐ जित्थे दो पैसेज गी कनै-कनै पढ़ने कन्नै सच्चा काम होंदा ऐ। भजन 45 इक ब्याह दा गीत ऐ। भजन 102 मुसीबत च पवे इक बंदे दी प्रार्थना ऐ। भजन 102 च, एह शब्द प्रभु, इस्राएल दे परमेश्वर, जिन्नै दुनिया गी बणाया, गी संबोधित कीते गे न। दोनों भजन बैतलहम च यीशु दे जन्म थमां सैकड़ों साल पैह्ले लिखे गे थे। इब्रानियों 1 दोनों भजनें गी उद्धृत करदा ऐ। इब्रानियों 1 दोनों भजनें गी परमेश्वर पिता दे शब्दें दे रूप च पेश करदा ऐ। इब्रानियों 1 दोनों भजनें गी पुत्र पर लागू करदा ऐ। मूल भजनें कने इब्रानियों 1 दे उद्धरणें बिच शब्दें दे नन्हे-नन्हे फर्क गी ध्यान देओ। बाइबल इन्हां नन्हें फर्का गी लुकां दी नेई, कने एह अध्ययन बी इन्हां गी नेई लुकांदा। भजनें कने इब्रानियों 1 बिच जेहड़ी चीज नेई बदलदी, ओह ऐ उस व्यक्ति दी पछाण जिस बारे च एह शब्द न।)

जे. प्रभुए मेरे प्रभु गी बोलेआ — ओ आयत जेहड़ी बहस गी खतम कर दिती

J1. Psalms 110:1

प्रभुए मेरे प्रभुए गी बोल्या, तू मेरे सज्जे हत्थे बैठ --> जालू तगर मैं तेरे दुशमनां गी तेरे पैरां दी चौकी नि बणा दिन्दा।

(मेरे निजी विचार: भजन संहिता 110:1 दी एह इक पंक्ति पैह्ली नजरा च दिखणे कने बढ़ी गहरी गल्ल कैहन्दी ऐ। अंग्रेजी च दोनों शब्द "Lord" लिखी दिते गे न। फर्क समझणे दा इक्को इशारा ऐ बड़ु अक्षरें दा इस्तेमाल। पैह्ला शब्द बड़ु अक्षरें च लिखेआ गेआ ऐ, LORD। दूआ शब्द बड़ु अक्षरें च नी लिखेआ। अंग्रेजी दे पिच्छे, एह दो बक्खरे-बक्खरे इब्रानी शब्द न। पैह्ला इब्रानी शब्द परमेश्वरे दा वाचा-नां ऐ, यहोवा (H3068)। KJV च बड़ु अक्षर हमेशा एह दस्से दे न जे थल्ले दा इब्रानी शब्द यहोवा ऐ। दूआ इब्रानी शब्द ऐ अदोन (H1113), जेहड़ा मालिक या शासके दे बाबत शब्द ऐ। एतथे इस्तेमाल होई अदोन दा रूप पढ़ेआ जांदा ऐ "मेरे प्रभु"। दाऊद, जिन्नी एह भजन लिखेआ, दर्ज करदा ऐ जे परमेश्वर कुसी ऐसे कन्नै गल्ल करा करदा ऐ जिसा दाऊद अपना ही मालिक बोलदा ऐ। हुण इक सादा सवाल पर सीचो। दाऊद इस्राएल दा राजा हा। तां उन्ना दा मालिक कुण हा? जवाब होर भी अजीब बणी जांदा ऐ जिसलै तुसां याद करदे ओ जे परमेश्वरे वादा कीता हा जे मसीह दाऊद दे अपने ही परिवार चा, कई पीढ़िएं बाद, आगा। इक बंदा आम तौर पर अपने ही परपोत्रे जो "मेरे प्रभु" नी बोलदा।)

J2. उसने आपू ओह पुच्छ्या, ते कोई जवाब न देई सक्या

मत्तीए रा सुसमाचार 22:41 जेबे फरीसी कट्टे थे, तेबे यीशुए तिना ते पूछेया, (42) “मसीह रे बारे रे तुसे क्या समजोए? से केसरी ल्वाद ए?” फरीसिये बोलेया, “दाऊदो री।” (43) तेबे तिने फेर पूछेया, “तेबे दाऊद आत्मा रे परी की तेसखे प्रभु कऊँ बोलोआ? (44) प्रभुए, मेरे प्रभुए खे बोलेया, ‘मेरे दाँणे बैठ, जदुओ तक आऊँ तेरे बैरिया खे तेरे पैरा निठे नि ल्याई देऊँ।’ (45) तो, जेबे दाऊद तेसखे प्रभु बोलोआ, तो से तेसरा पुत्र कियौँ ऊआ?” (46) इजी रा जवाब कोई नि देई सकेया। पर तिजी ते बादो ते केसी खे बी तिना ते कुछ पूछणे री इम्मत नि ऊई।

जेबे दाऊद तेसखे प्रभु बोलोआ, तो से तेसरा पुत्र कियौँ ऊआ? --> इजी रा जवाब कोई नि देई सकेया।

(मेरे निजी विचार: मत्ती 22:41-46 च यीशुए फरीसियें गी आपणे ही सवाल दा जबाब नीं दस्सेआ। यीशुए सवाल पुच्छेआ ते सवाल जबाब बगैर छडी दिता। एह सवाल हुण बी बगैर जबाबे दे ऐ, ते इस सवाल दा हाली बी सिर्फ इक ई जबाब फिट बैठदा। मसीह दाऊद दे पुत्र ऐ शरीरे दे मुताबिक। मसीह दाऊद दे दा प्रभु ऐ इस गल्ल दे मुताबिक जे सै दाऊद दे जन्म थमां पैह्ले क्या था।)

J3. पतरस ने उसी आयत नू कलीसिया शुरू होणे आळे दिन कम्म च लिआ

प्रेरितों रे काम 2:32 येई यीशु परमेश्वरे जिऊँदा कितेया, जेसरे आसे सब गवा ए। (33) तियाँ ई परमेश्वरो रे दाँणे आथो ते सबी ते उचा पद पाई की और पिते ते से पवित्र आत्मा पाई की जो वादा कितेया था, तिने ये लटेया, जो आज तुसे देखोए और सुणोए। (34) कऊँकि दाऊद तो स्वर्गो रे नि चढ़ना, पर से आपू बोलोआ, “प्रभुए परमेश्वरे मेरे प्रभुए खे बोलेया; (35) मेरे दाँणे बैठ, जदुओ तक आऊँ तेरे बैरिया खे तेरे पैरा निठे नि करी देऊँ।” (36) “तो एबे इस्राएलो रा सारा कराना, पक्का जाणी लओ कि परमेश्वरे तेसी यीशुए खे, जो तुसे कूसो पाँदे चढ़ाया, प्रभु बी और मसीह बी ठराया।”

दाऊद स्वर्ग कू नी चढ़ेया --> परमेश्वरे उसी यीशुए कू, जेसी तुसां कूसे पर चढ़ाया, प्रभु ते मसीह दोनु बणाई दिता।

(मेरे निजी विचार: प्रेरितों के काम 2:29-36 च पतरस दा तर्क छोटा ऐ। पतरस दे तर्क गी कुसी चतुराई दी जरूरत नीं। दाऊद हे कुसे दे बारे च लिखेआ जो परमेश्वरे दे सजे हत्ये बैठदा ऐ। दाऊद कदी परमेश्वरे दे सजे हत्ये बैठने आस्ते उप्पर नीं गेआ। कोई बी बंदा जाइयै दाऊद दी कब्र देखी सकदा ऐ, पतरस कुछ आयतां पैह्ले ऐ बोलदा। इस करी ओह भजन दाऊद दे बारे च नीं छा। फिरी पतरस उस बंदे दा नां दस्सी दिन्दा ऐ जिस दे बारे च ओह भजन छा। पतरस इस बंदे दा नां बगैर कुसी नरमी दे लैदा ऐ: “उई ओह ईसू, जिसा गी तुसां कूसे पर चढ़ाया।” पतरस इस बंदे गी “प्रभु ते मसीह दोनो” बोलदा ऐ।)

ज4. उए ई भजन इक होर गल्ल आखदा ऐ — ते इब्रानियों उस उप्पर सारी दलील बनांदा ऐ

Psalms 110:4

प्रभुए कसम खाधी ऐ, ते उ पछतायेगा नीं --> तूं मलिकिसिदक दे क्रमा दे अनुसार सदा खातरा जाजक ऐं।

इब्रानियों 5:5 तियाँ ई मसीहे बी प्रदान पुरोईत बणने री बढ़ाई आपणे आपू ते नि लयी, पर तेसखे तिने ई दिती, जिने तेसखे बोलेया था, “तूँ मेरा पुत्र ए, आज आऊँ ए एलान करूँआ कि आऊँ तेरा पिता ए” (6) ईयां ई से दूजी जगा रे बी बोलोआ, “तूँ मलिकिसिदको रिया रीतिया पाँदे सदा खे पुरोईत ए।”

तियाँ ई मसीहे बी प्रदान पुरोईत बणने री बढ़ाई आपणे आपू ते नि लयी --> तूं मलिकिसिदको रिया रीतिया पाँदे सदा खे पुरोईत ए.

इब्रानियों 7:3 जेसरा ना पिता, ना माए, ना ई वंश ए, जेसरे ना दिनो री शुरूआत ए और ना जीवनो रा अंत ए। पर परमेश्वरो रे पुत्रो जेड़ा ठईरी की से सदा खे पुरोईत बणेया रा रओआ।

ना दिनां दी शुरूआत, ना जीवना दा अंत --> सदा पुरोहित बणी रैदा है।

इब्रानियों 7:24 पर यीशु जुगो-जुगो तक रओआ, इजी बजअ ते तेसरा पुरोईतो रा पद अटल ए। (25) तेबेई तो जो यीशुए रे जरिए परमेश्वरो रे नेड़े आओए, से तिना खे हमेशा बचाओआ, कऊँकि से तिना खे बिनती करने खे सदा जिऊँदा ए।

उ हमेशा रैदा ऐ + उसदी याजकता कदी नि बदलदी --> उ उना गी पूरी तरह बचाणे जोगा ऐ।

(मेरे निजी विचार: इक छोटा भजन घणी सारी गल्लां रखदा। भजन 110 इक ऐसे बंदे रा नां लैदा जिसनै दाऊद अपना प्रभु कहन्दा, जो परमेश्वरे रे सजे हत्ये बैठरा ऐ। भजन 110 इक राजा रा नां लैदा जो सियोंने थमां राज करदा। भजन 110 इक ऐसे पुरोहित रा नां लैदा जो हमेशा लेई ऐ, इक ऐसे परम्परा रा जो इस्राएले री पुरोहिताई थमां भी पुराणी ऐ, जिसदी सौह परमेश्वरे खाई ऐ ते जिसनै परमेश्वर वापस नीं लौआगा। पुराणे इस्राएले च, कानून राजा रे पदे ते पुरोहित रे पदे नै बखवरा रखदा था। कानूने दे मताबक कोई बंदा दोनो पद नीं रखी सकदा था। भजन 110 दोनो पद इक्के बंदे नै देंदा। इब्रानियों री किताब कई अध्याय लगाई ऐ ई समझाणे च कि वो बंदा कूण ऐ।)

K. कब्रा थमां जिन्दा उठाया गया — ते तेरे मांह रैह्दा

K1. असल गल्ल, ते इसा किंयां दिती गई

1 कुरिन्थियों 15:3 इजी बजअ ते में तुसा लोका खे प्रभु यीशुए ते मिली री बऊत जरूरी सच्चाई बताई ती। से सच्चाई ये ए कि पवित्र शास्त्रो रे मुताबिक यीशु मसीह आसा रे पापो री तई मरी गा। (4) और दबाए गये और पवित्र शास्त्रो रे मुताबिक तीजे दिने जिऊँदे बी ऊईगे।

मसीह शास्त्रां दे अनुसार अस्सां दे पापां खातर मरा + उ दफनाया गया + उ तीजे दिन फिर जी उठा।

1 कुरिन्थियों 15:20 पर सच्चाई ये ए कि परमेश्वरे मसीह मुड़देया बीचा ते जिऊँदा करी ता रा और से मरे रेया बीचा ते जिऊँदा ऊणे वाला पईला फल बणी चुकी रा।

मसीह मरे होयां बिच्चा ते जी उठ्वा है, ते सोणे वालयां दा पैहला फल बणी गया है।

K2. पुनरुत्थाने उंदे बारे च की साबित किता

रोमियों 1:3 ये सुसमाचार आपणे पुत्र आसा रे प्रभु यीशु मसीह रे बारे रे था। से शरीरो रे मुताबिक तो राजा दाऊदो रे वंशो ते जम्मेया, (4) और पवित्र आत्मा री सामर्थ ते से मरे रेया बीचा ते जिऊँदा ऊआ। इजी ते ये साबित ऊआ कि से परमेश्वरो रा पुत्र ए और सेई यीशु मसीह आसा रा प्रभु ए।

शरीर दे मुताबक दाऊद दे वंश थमां बणाया गया --> मरे होयां थमां जी उठणे दे राहें शक्ति सारू परमेश्वर दा पुत्र घोषित कीता गया।

(मेरे निजी बिचार: पौल ऐं जबाबैरे दोनो हिस्से फेरी इक्को वाक्यैरी च, तरतीबे कन्नै, रोमियों 1:3-4 च रखदा। यीशु दाऊद रे खानदान थमां, शरीरे रूपे च आया। यीशु गी कब्रा थमां निकलणे कन्नै शक्ति सांगे परमेश्वरे रे पुत्रे रूपे च घोषित कीता गेआ। कोई बी बंदा दावा कर सकदा जे मैं परमेश्वरे रा पुत्र आं। सिर्फ यीशुई दा एह दावा मरे होयां थमां जी उठियै साबित होया।)

K3. पुराणे नियमे इं पैह्ने बोलेया

Psalm 16:10

तू मेरी जान गी पताल च नि छडुंगा --> कने न ही तू अपने पवित्र जणे गी सड़ने देंगा।

प्रेरितों रे काम 2:29 “ओ पाईयो! आऊँ तेस कुलपति दाऊदो रे बारे रे तुसा खे इम्मता साथे बोली सकूँ आ कि से तो मरी गा और दबाई बी दितेया और तेसरी कब्र आजो तक आसा गे मौजूद ए। (30) से भविष्यबक्ता था और ये जानो था कि परमेश्वर मांते कसम खाई की वादा करी राखेया कि मां तेरे वंशो बीचा ते एक जणा तेरे सिंहासनो पाँदे बठयालना। (31) तिने ऊणे वाली गल्ला खे पईले तेई देखी की मसीह रे जिऊँदे ऊणे रे बारे रे भविष्यबाणी किती, कि ना तो तेरा प्राण नरको रे छाडेया और ना ई तेसरा शरीर सड़ेया।

दावूद मरगया अते दफनाया गया --> उसने पहले ई देखके मसीह दे पुनरुत्थान दी गल्ल कही।

K4. ते हुण — से उन्हा लोका मांहू रेंहदा जिन्हा जो उसनै बचाया

रोमियों 8:11 और जे परमेश्वर रा आत्मा, जिने प्रभु यीशु मरे रेया बीचा ते जिऊँदा कितेया, तुसा रे बसी रा, तो जिने मसीह मरे रेया बीचा ते जिऊँदा कितेया, से तुसा रे मरे रे शरीरो खे बी आपणे आत्मे की, जो तुसा रे बसी री, जिऊँदा करोगा।

जिस स्वर्गदूता जो यीशुए जो मुर्दयां च था जिन्दा कीता, उसदी आत्मा तुसां च रौंदी ऐ --> उई तुहाड़े मरणहार शरीरे जो भी जिन्दा करगा।

गलातियों 2:20 आऊँ मसीह साथे कूसो पाँदे चढ़ाया। आऊँ एबे जिऊँदा नि रया, पर मसीह मांदे जिऊँदा ए। आऊँ शरीरो रे जो एबु जिऊँदा ए, तो बस तेस विश्वासो ते जिऊँदा ए, जो परमेश्वर रे पुत्रो पाँदे ए, जिने माखे प्यार कितेया और मेरी खातर आपू खे देईता।

आऊँ मसीह साथे कूसो पाँदे चढ़ाया --> पर मसीह मांदे जिऊँदा ए। आऊँ शरीरो रे जो एबु जिऊँदा ए।

कुलुस्सियों 1:27 परमेश्वर ये इजी खे प्रकट कितेया कऊँकि से चाओ था कि तुसे दूजी जाति तिना रे नौखी और महिमा रे पेतो खे समजो। से पेत ये कि मसीह तुसा लोका बीचे रओआ और तिना रे तुसा लोका री महिमा री उम्मीद ए। **[G3466 musterion ■]**

ये भेद = मसीह तुसां च, महिमा री आस।

यूहन्ना 14:23 यीशुए तेसखे बोलेया, “जे कोई मांते प्यार राखोआ, तो तेस मेरे उपदेश मानणे और मेरे पिते तेसते प्यार राखणा और आसे तेसगे आऊणे और तेस साथे रणे।

जेकर कोई माणु मिंजो प्यार करदा ऐ तां उ मेरी गल्लां मन्ना --> अस उसगी कोल आवगे कने उसदे कोल रैहणा बणागे।

(मेरे निजी विचार: इस अध्ययन दी पूरी लाइन जो अपने नतीजे तगर फॉलो करो। यीशु पिता कत्रे तेस बगत भी थे जिसलू कोई चीज़ नि बणी थी। यीशु पुराणे नियम च मनुखां गे दिखेया, ते ओह मनुख जीन्दे रौहे। यीशु इक ओर्ता ला इक छोटे कस्बे च जम्मे। यीशु इक पहाड़ी पर, लक्कड़ पर, शहर ला बाहर मारे गे। यीशु कब्र चा बाहर आया। बाइबल हुण बोलदी है जे यीशु मनुखां दे अन्दर रौहदा है। इहे नतीजा है जित्थे ये अध्ययन शुरू ला जाणा था। इस अध्ययन दा मकसद कदी भी ये बहस जित्ठणा नि था जे यीशु कुण है। इस अध्ययन दा मकसद ये है जे जेहड़ा एह सब कुछ है, ओह तेरे अन्दर रौहणा चांहदा है। यूहन्ना 14:23 भी ध्यान च रक्खो: “अस्सां आनो!” ओह बहुवचन आवाज़ जेहड़ी उत्पत्ति 1:26 च बाइबल शुरू करदी थी, ओह हल्ले भी एत्थे मौजूद है।)

L. ऊ फेर आणे वाळा ऐ — ते ऊ चुनाव जो हमेशा ताई रेंदा ऐ

L1. से आवा दा ऐ, ते हर आँख उसजो देखगी

प्रेरितों रे काम 1:9 ये बोलदे ऊए सेयो, तिना रे देखदे-देखदे परमेश्वर रे जरिए स्वर्गो खे चकी ते और बादलो री बजअ ते सेयो तिना खे जादा देरा तक देखी नि सके। (10) जेबे तिना खे जांदे ऊए सेयो सर्गो खे ताकणे लगी रे थे, तेबे दो माणू सफेद टाले पईने रे अचाणक तिना बीचे आयी की खड़े ऊईगे (11) और तिना खे बोलेया, “ओ गलीली मर्दो! तुसे खड़े ऊई की सर्गो खे कऊँ लगी रे देखणे? येई यीशु जो तुसा गे ते स्वर्गो खे चकी ला रा, जियाँ तुसे से स्वर्गो खे जांदा ऊआ देखी राखेया, तियाँ ई से फेर आऊणा।”

येई यीशु जो तुसा गे ते स्वर्गो खे चकी ला रा, जियाँ तुसे से स्वर्गो खे जांदा ऊआ देखी राखेया, तियाँ ई से फेर आऊणा।

प्रकाशितवाक्य 1:7 देखो, से बादलो साथे आऊणे वाला ए और हर एकी आखी से देखणा, बल्कि जिने से ऊजेया था, तिना बी से देखणा और तरतिया रे सारे कुला तेसरी बजअ ते जोरे-जोरे की रोणा। आ, ये ऊणा। आमीन।

हर आँख उसा जो देखलू + तिना बी जिने उसा छेद्या।

L2. 2 थिस्सलुनी 1:7 तेस तुसा लोका खे दुःख क्लेशा ते चैन देणी और परमेश्वर आसा लोका खे बी चैन देणी। ये तेस बखंते ऊणा जेबे प्रभु यीशु मसीह आपणे सामर्थी स्वर्गदूता साथे बऊत जादा सुलगदी ऊई आगी रे स्वर्गो ते प्रकट ऊणा। **[G1557 ekdikesis ■]** (8) परमेश्वर तिना लोका खे सजा देणी जो तिना खे नि मानदे और म्हारे प्रभु यीशु मसीह रे सुसमाचारो पाँदे विश्वास नि करदे। (9) सेयो लोक प्रभुए रे सामणे ते और तिना री महिमामय सामर्थी रे तेजो ते सदा खे लग किते जाणे। तेस तिना लोका खे अनन्त विनाशो री सजा देणी। (10) ये तेस दिने ऊणा, जेबे प्रभु यीशु आपणे लोका बीचे महिमा पाणे वापस आऊणा और सब विश्वास करने वालेया लोका अचम्बा करना। इदे तुसे बी शामिल ए कऊँकि तुसे आसा रे संदेशो पाँदे विश्वास कितेया।

लोआं दी अगनी च बदला लेंदा होया उआं ते जेहड़े परमेश्वर जो नि जानदे, ते जेहड़े सुसमाचारे जो नि मन्ने --> जिस बगत से अपने पवित्र जनां च महिमावान होणे आग।

(मेरे निजी विचार: 2 थिस्सलुनीकियों 1:8 गी आराम से पढ़ो। 2 थिस्सलुनीकियों 1:8 दो समूहों के नाम लेंदी ऐ, इक समूह नी। पैह्ला समूह परमेश्वर गी नी जाणदा। दूआ समूह सुसमाचारा गी नी मानदा। जाणणा ते मानणा दोऐ इको आयत च साथे बताए गे न। 2 थिस्सलुनीकियों 1:10 आर्थी ध्यान देओ, जेह इको वाक्या रा हिस्सा ऐ। यीशुआ रा उही आणा जेह इक समूहा वास्ते आग ऐ, दूए समूहा वास्ते महिमा ऐ। एह इक ही घटना ऐ। इक मनुख एह घटना दे कुण्ठी पासे ऐ, एह हुणे तय होई जांदा ऐ, बाद च नी।)

L3. प्रकाशितवाक्य 19:11 तेबे मैं स्वर्ग खुले रा देखेया। तेती मां सामणे एक सफेद कोड़ा था और तेस पाँदे एक सवार था, जेसखे विश्वासो जोगा और सच्चा बोलोए। और से धार्मिकता रे न्याय और लड़ाई करोआ। (12) तेसरी आखी आगी री लूपिया ए, तेसरे सिरो पाँदे बऊत सारे राजमुकट ए। और तेसरा एक नाओं तिजी पाँदे लिखी राखेया, जो तेसखे छाडी की ओर कोई नि जाणदा। (13) तिने खूनो बीचे डबोए रे टाले पईने रे थे और तेसरा नाओं परमेशरो रा वचन ए।

जेहड़ा उसदे उप्पर बैठा था ओहदा नां विश्वासयोग्य ते सच्चा था --> ओहदा नां परमेश्वर दा वचन ऐं।

प्रकाशितवाक्य 19:16 तेसरे टाले और खुटिया रे ये नाओं लिखी राखेया: “राजेया रा राजा और प्रभुए रा प्रभु।”

राजेया रा राजा और प्रभुए रा प्रभु.

(मेरे निजी विचार: प्रकाशितवाक्य 19:12 री एक छोटी लाइन कन्नै ध्यान दिया। यीशुए रा एक नांS लिखेया था जेह कोई मैंह नि जाणदा था, पर सिर्फ उएई इस नांए जो जाणदा था। इस अध्ययन जो जेह नांS दिते गे न, वे इसी हिस्से च दिखदे न। वे नांS न विश्वासयोग्य कने सच्चा। परमेश्वर रा वचन। राजयां रा राजा, कने प्रभुआं रा प्रभु।)

L4. किताबां खोलियां गईयां

प्रकाशितवाक्य 20:11 तेबे मैं एक बड़ा सफेद सिंहासन, और से जो तिदे बैठी रा था, देखेया। जेसरे सामणे ते तरती और स्वर्ग नठीगे और तिना खे जगा नि मिली। (12) तेबे मैं छोटे-बड़े सब मरे रे सिंहासनो सामणे खड़े रे देखे, और कताबा खोलिया। तेबे एक ओर कताब खोली गयी, मतलब-जीवनो री कताब। और जेड़ा तिना कताबा रे लिखी राखेया था, तेड़ा ई तिना रे कामो रे मुताबिक मरेया रा न्याय कितेया। (13) समुद्रे सेयो मरे रे, जो तिदे थे, देई ते, तेबे मौते और नरके सेयो मरे रे, जो तिदे थे देई ते और तिना बीचा ते हर एकी खे तिना रे कामो रे मुताबिक न्याय कितेया। (14) तेबे मौत और नरक बी आगी री झीला रे पाई ते, ये आगी री झील दूजी मौत ए। (15) और जेस केसी रा नाओं जीवनो री कताबा रे लिखेया रा नि मिलेया, से आगी री झीला रे पायी ता।

किताबां खोल्ली गेइयां + इक होर किताब खोल्ली गई, जेकी जीवने री किताब ऐ --> जेहड़ा कोई जीवने री किताबा मां लिखेआ नीं मिळेआ, से अगिये री झीला मां सुट्टेआ गेआ।

(मेरे निजी विचार: प्रकाशितवाक्य 20:12 च सिंहासने कन्ने दो किस्मा दियां किताबां दिखदियां न। इक किस्म दी किताब च लोकां जो कीता होया दर्ज ऐ। दूई किस्म दी किताब च नां दर्ज होंदे न, जिसजो जीवन दी किताब बोलदे न। प्रकाशितवाक्य 20:12 ऐ नि बोलदा जे कोई भी किताबां च लिखे कम्मां कन्ने बचाया गया। प्रकाशितवाक्य 20:15 बोलदा ऐ जे इक्को गल्ल जिसने नतीजा तय कीता, से एह थी जे कुसी बंदे दा नां जीवन दी किताब च लिखेया था कि नि।)

एल5. चुनाव, जे तरीके बाइबल कदी भी कोई गल्ल इतना साफ नई बोलदी

यूहन्ना 3:18 जो मां पाँदे विश्वास करोआ, तेस पाँदे दण्डो री आज्ञा नि ऊँदी, पर जो मां पाँदे विश्वास नि करदा, से दोषी ठईरी चुकेया, कऊँकि तिने परमेशरो रे एकलौते पुत्रो रे नाओं पाँदे विश्वास नि कितेया।

जो कोई विश्वास नि करदा, से पैह्ले ई दोषी ठहरेया।

यूहन्ना 3:36 जो परमेशरो रे पुत्रो पाँदे विश्वास राखोआ, अनन्त जीवन तेसरा ईए, पर जो परमेशरो रे पुत्रो री नि मानदा, तेस जीवन नि देखणा, पर परमेशरो रा रोष तेस पाँदे रओआ।”

जो परमेशरो रे पुत्रो पाँदे विश्वास राखोआ, अनन्त जीवन तेसरा ईए.

रोमियों 6:23 कऊँकि पापो री मजदूरी तो मौत ए, पर परमेशरो रा बरदान आसा रे प्रभु यीशु मसीह रे अनन्त जीवन ए।

कऊँकि पापो री मजदूरी तो मौत ए --> पर परमेशरो रा बरदान आसा रे प्रभु यीशु मसीह रे अनन्त जीवन ए.

(मेरे निजी विचार: रोमियों 6:23 इस पूरे अध्ययन दा केंद्रीय आयत है। रोमियों 6:23 इक छोटी सी वाक्य है जिसदे दो हिस्से न। पाप दा इक मोल है जेहड़ा देणा पौंदा है, ते ओह मोल मौत है। ओह मोल दो तरीकेआं चा इक्क तरीके कन्नै अदा होँदा है। जां तां बंदा अपने आप ओह मोल हमेशा लेई अदा करदा है, जां बंदा ओह लेंदा है जेहड़ा यीशुए पहले ही अदा करी दित्ता, इक उपहार दे रूपै च। इहा साढ़ी पूरी चोणी है। कोई बी इस चोणी थमां नीं बची सकदा, कीजे न चुनणा बी पैह्ले तरीके गी चुनणे बराबर ही है। इस पूरे अध्ययन दी हर गल्ल, उत्पत्ति 1:26 दे "आओ मनुख बनाचे" थमां लेइयै प्रकाशितवाक्य 20 दे सिंहासन तगर, इसी इक फैसले पासे बधदी आई है। अजें बी ओह फैसला करने दा वक्त है। यीशु अजें बी सद्दा दे करदा है।)

L6. प्रेरितों रे काम 4:12 यीशुए ते बगैर केसी दूजे रे जरिए उद्धार निए, कऊँकि स्वर्गो रे निठे और मांणूआ बीचे और कोई नाओं नि देई राखेया, जेसरे जरिए आसे उद्धार पाई सकूँ।”

यीशुए ते बगैर केसी दूजे रे जरिए उद्धार निए --> कऊँकि स्वर्गो रे निठे और मांणूआ बीचे और कोई नाओं नि देई राखेया, जेसरे जरिए आसे उद्धार पाई सकूँ.

प्रकाशितवाक्य 22:17 परमेश्वर आत्मा और मित्रू ए री लाड़ी दोनो यीशुए खे बोलोए, “आ!” और सुणने वाला बी बोलो कि “आ!” और जो त्याया ए, से आओ और जो कोई चाओ से जिन्दगिया रा पाणी मुफ्त लओ।

परमेश्वर आत्मा और मित्रू ए री लाड़ी दोनो यीशुए खे बोलोए --> से आओ और जो कोई चाओ से जिन्दगिया रा पाणी मुफ्त लओ.

यूहन्ना 3:17 परमेश्वर आपणा पुत्र दुनिया रे इजी खे नि पेजेया कि से दुनिया पाँदे दण्डो री आज्ञा देओ, पर इजी खे कि दुनिया रे लोक तेसरी बजअ ते उद्धार पाओ।

परमेश्वर आपणा पुत्र दुनिया रे इजी खे नि पेजेया कि से दुनिया पाँदे दण्डो री आज्ञा देओ --> पर इजी खे कि दुनिया रे लोक तेसरी बजअ ते उद्धार पाओ.

(मेरे निजी विचार: बाइबल दा आखरी न्योता किशरी बी कीमत दा नीं ऐ। बाइबल दा आखरी न्योता कुसी बी गी दित्ता जांदा ऐ। जेह्ना शब्द इस्तेमाल कीता गेदा ऐ से ऐ “जो कोई”। शब्द “जो कोई” जान बुझी करी कुसी गी बी बाहर नीं छोड़दा। इसदे च सारे शा माडा बंदा बी शामिल ऐ जेह्ना एह अध्ययन पढ़ा करदा ऐ। इसदे च सै बंदा बी शामिल ऐ जिनी पहलें ई सालां थमां “नीं” बोली राख्या ऐ। यीशु, जेह्ना एह सारा किश ऐ, ओई ऐ जेह्ना “आओ” बोला करदा ऐ। बंदे गी बस एही ई करना ऐ जे आपे ते जिवणे रे पाणिये गी लैई लऐ।)

अभिआस कृति

1. इब्रानियों 9:22 — कने व्यवस्था दे मुताबिक लगभग सारी चीजां लहू सारे शुद्ध कीतियां जांदियां न:

- a) क्योंकि देह दी जिंदगी खून विच है
- b) अत खून बगाए बिना कोई माफी नीं
- c) किजे लहू ही ऐ जड़ा आत्मा दे लेखे प्रायश्चित करदा ऐ

2. रोमियों 5:8 — पर परमेश्वर आपणा प्यार हमारे पर ऐसे जताहदा है, कि जदूं हम पापी ही थे:

- a) असां उसदे राहें क्रोधे थमां बचांगे
- b) असां उसदे पुत्रा री मौत रे राहीं परमेश्वरा साथ मिला दिते गे
- c) मसीह असां आस्तै मरा

3. इब्रानियाँ 1:8 — पर पुत्र लेई उ बोलदा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा जुगाँ लेई है:

- a) तेरे राज दा राजदंड न्याय दा राजदंड ऐ
- b) तेरे राज्य दा राजदंड सिद्धा राजदंड ऐ
- c) ते राज उसदे कंधे पर होग

4. भजन संहिता 110:1 — यहोवा ने मेरे प्रभु थमां बोलेया, तू मेरे दांए हथे बैठ:

- a) जदुतगर मैं तेरे दुश्मनां जो तेरे पैरां हेठ ना कर देआं
- b) तू आपणे दुश्मणा दे बिच राज कर
- c) जब तांई मैं तेरे बैरियां जो तेरे पावां री चौकी नि बणा दियां

5. 1 कुरिन्थियों 15:20 — पर हुण मसीह मरे होयां चा जी उठया ऐ:

- a) अत सोणे वाल्यां दा पैहला फल बण गया
- b) ते जो सै तीजे दिन शास्त्रां दे मुताबिक फिरी जी उठया
- c) ते ना तू अपने पवित्र जन गी सड़ने देना

6. प्रकाशित वाक्य 1:7 — देखो, वो बादलां साथ आन्दा है:

- a) अत एक बादल ने उसने उन्हां री नजरां ते लुका लिया
- b) ते हर अख उसा गी देखणी
- c) अर उना सारेयां विच जो विश्वास करदे न, आदर पाणे खातर

7. 2 थिस्सलुनीकियों 1:9 — जो परमेश्वर दे सामणे थमां हमेशा दे नाश दी सजा पाणा:

- a) कने उदिया शक्तिया री महिमा ला
- b) जेकी दूर्ई मौत ऐ
- c) ते उसरी महिमा दे तेजा वास्तै

जवाब कुंजी: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-a, 6-b, 7-a

यो अध्ययन कन्नै शाखा बणदा

शब्दें दा मतलब कनै जरूरी है: एक अंग्रेजी शब्द "LORD" भजन संहिता 110:1 च दो अलग-अलग इब्रानी शब्दों दी नुमाइंदगी करदा है। ओह दो इब्रानी शब्द न यहोवा (H3068) कनै अदोन (H113)। मत्ती 22:45 च यीशुए दी पूरी दलील इसी फर्क पर टिकी है।

--> एह तुसां पर कियों लागू हुन्दा ऐ: यीशु सिर्फ ओह्दे न जेहड़ा आया। यीशु सिर्फ ओह्दे न जेहड़ा आणे आळा ऐ। यीशु ओह्दे न जेहड़ा हुण तुसां च रौह्ना चांह्दा ऐ (कुलुस्सियों 1:27, गलतियों 2:20)।

अनन्तकाला आस्तै एह्दा मतलब की ऐ: पापे दी मजदूरी मौत ऐ। परमेश्वरा दा दान साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राहें अनन्त जीवन ऐ (रोमियों 6:23)। एह्च दो ही तरीके न जिना कन्नै कोई मैणू पापे दा कर्ज चुकांदा ऐ।

रैबिट ट्रेल: भजन संहिता 110:4 कनै इब्रानियों दी किताब दा अध्याय 7 मल्कीसेदक दे याजकपन दी पूरी शिक्षा खोलदे न। एह शिक्षा एक ही मनुष्य च मिली राजा कनै याजक दे मिलणे दी गल्ल करदी है, जो व्यवस्था थमां भी पुराणा है, कनै जिसदे बारे च परमेश्वरे इक ऐसी कसम खाधी है जेहड़ी ओह वापस नि लोंदा। इस शिक्षा दे लायक अपना ही पूरा अध्ययन बणदा है।

--> खरगोशा दा रस्ता: 2 थिस्सलुनीकियों 1:7-10 अर प्रकाशितवाक्य 19:11-16 यीशुए दे वापस औणे दे सारे सिद्धांता खोलदे न। इस सिद्धांता च यीशुए दे वापस औणे दी निश्चितता, यीशुए दे वापस औणे दी अचानकता, अर यीशुए दे वापस औणे गे उडीक करने दा हुकम शामिल ऐ। साफ-साफ बोलो: पवित्रशास्त्र यीशुए दे वापस औणे दी निश्चितता बोलदा ऐ अर यीशुए दे वापस औणे दा समय दस्सणे ते इनकार करदा ऐ (मत्ती 24:36, प्रेरितों दे काम 1:7)। एह सेवकाई बी यीशुए दे वापस औणे दा समय दस्सणे ते इनकार करदी ऐ।

एक खुल्ला नमंत्रण — तुं कोई बी होई, पढ़दे रौह।

इस अध्ययन गी पढ़ने आस्तै तुसां ईसाई होणा जरूरी नी। मते सारे कारण तुसां जो इत्थे ल्याई सकदे न। कुसै तलाश ने तुसां जो इत्थे ल्याया होणा। कुसै बहस ने तुसां जो इत्थे ल्याया होणा। बरसां थमां जेहड़ा सवाल तुसां आपणे मन च चुकेया, ओऐ तुसां जो इत्थे ल्याया होणा। कुसै होर बंदे दे विश्वास बारै जिज्ञासा ई तुसां जो इत्थे ल्याई सकदी। इस वेबसाइट पर जो कुछ बी है, ओह तुसारा ही है, बिना कुसै किमत दे, तुसारी अपनी भाषा च। असां कदी बी तुसारा नां नी पुछदे। असां कदी बी तुसारा देश नी पुछदे। असां कदी बी नी पुछदे जे तुसां क्या मन्नदे ओ। इक अध्ययन ईसा जो पूरी तरहा बयान नी करी सकदा। असां इस सवाल च अपनी पूरी ताकत लाई दिती, फिरी बी इस अध्ययन बाइबल च सिर्फ इक ही रस्ता तै किया। ईसा शुरुआत थमां पहलैं थे। ईसा हुण बी है। ईसा वापस औणे आह्ला है। कोई इक्को पन्ना इन्ना सब कुछ पूरी तरहा बयान नी करी सकदा। होर अध्ययन इत्थे उडीक करा दे न। दया पर अध्ययन इत्थे उडीक करा दे न। बुद्धि पर अध्ययन इत्थे उडीक करा दे न। ज्ञान पर अध्ययन इत्थे उडीक करा दे न। धीरज पर अध्ययन इत्थे उडीक करा दे न। भक्ति पर अध्ययन इत्थे उडीक करा दे न। होर अध्ययन औणे आह्ले न। इना अध्ययनां जो जिस तरतीब च तुसां जो अच्छा लगे, उस तरतीब च पढ़ो। जियां-जियां तुसां जांदे ओ, असां दे स्रोत जांच लो। इना अध्ययनां च हर आयत जाणी-बुझी करी पूरी छाप्पी दिती गई है। तुसां जो कदी बी असां दी गल्ल पर भरोसा करने दी लोड़ नी। तुसां खुद हर आयत जो तोल सकदे ओ।

इस्से दे बाद इक होर सद्दा औंदी ऐ। असां इस गल्लै नै नीं छुपांगे कि ओह सद्दा लुकाई ऐ। ओह सद्दा ओस अध्थेन बारे ऐ जिस्सा ऐ कि इक इन्सानै नै उद्धार पाणे लेई क्या करना चाहिदा। जेकर तू हुण पढ़ना चाहन्दा ऐं तां हुण पढ़। जेकर तू पैह्ले कुछ होर पढ़ना चाहन्दा ऐं तां पैह्ले कुछ होर पढ़। कोई गिणती नीं करदा। दोहीं तरीकें दरवाजा खुल्ला रैहन्दा ऐ। पौलुसे हेठला वाक्य इक शैहरा च बोल्या जित्थै ओह्दे अपने परमेश्वरा नालों होर देवतें दे बड़े सारे यज्ञ-वेदियां थियां। पौलुसे एह गल्लां उन्हां लोकां नै बोलियां जिन्हां पौलुसे नै ओस शैहरा च औणे लेई नीं बुलाया था।

प्रेरितों रे काम 17:26 तिने एक ई मूलो ते मांणूआ री सब जातिया, सारी तरतिया रे रणे खे बणाई राखिया और तिना रे बणाए रे बखत और रणे री सीमा इजी री खातर बानी राखिया। (27) परमेश्वरे एड़ा तेबे कित्तेया ताकि लोक तेसखे टोली, उम्मीद राखो कि तेसखे टटोली की पायी सकोए, तेबे बी से आसा बीचा ते केसी ते बी दूर निए।

उसने सारी माणुह जातियां जो इक ही खून थमां बणायां --> जिस्सेतै वे प्रभु जो टोलन अते उसजो पाणा, + उ सांह च कोई भी थमां दूर नई है।

ग्रीक कुंजी शब्द

“मेल किता होया” — **G2644 katallasso** — दुश्मनी थमां दोस्ती मां बदलणा; कृपा मां वापस लियाणा

काटालासो एककी शब्दे मां कूसे दा सारा कारण दस्सदा ऐ।

“मिलाप” — **G2643 katallage** — कृपा दा फिरी होणा; दो बखखरे होई गे पासेआं दा फिरी इक्ठा होणा

कातालागे उप्पर बतायी कातालासो सांई इक्को जड़ा थमां औंदा ऐ। कातालासो मेल-मिलापे दे कम्मा जो नाम दिन्दा ऐ (दो अलग होई गेदे लोकां बिच दोस्ती फेर बणाऊणा)। कातालागे उस मेल-मिलापे दे नतीजे जो नाम दिन्दा ऐ।

“माफी” — **G859 aphesis** — भेजी देणा; छुड़ाणा; छोड़ी देणा; माफी

लहू बगाए बिना, पापे दी माफी नई होंदी।

“रहस्य” — **G3466 musterion** — इक भेद; कुछ जो पैह्ले लुकोया था ते हुण दस्सेया गया

बाइबले च, रहस्य कदी बुझणे आह्ला पहेली नी हुंदा। बाइबले च रहस्य उह भेत ऐ जेहड़ा परमेश्वरे बताणे दा फैसला किता।

“बदला” — **G1557 ekdikesis** — जेह न्याय थमां निकलदा ऐ; गलती दा पूरा सुधार

एकडिकेसिस शब्द 2 थिस्सलुनीकियों 1:8 च वरतेआ गोआ ऐ। एकडिकेसिस दा मतलब बेकाबू गुस्सा नि ऐ। एकडिकेसिस दा मतलब ऐ न्याय जो पूरी तरह ने पूरा कित्ता जाणा।

“पैहलौठा” — **G4416 protokos** — पैहलोठा; पैहले जम्मेया
पिता बोलदा “परमेश्वरे दे सारे स्वर्गदूत उनगी प्रणाम करन” पुतरा दे बारे च।

इब्रानी मुख्य शब्द

“यहोवा” — **H3068 Yehovah** — परमेश्वरे दा वाचा वाला नां, जेड़ा किंग जेम्स बाइबल च बड्डे अक्खरां च यहोवा लिखेया गया है
पुराणे नियमे च जित्थे बी बड्डे अक्षरां च प्रभु लिखेया ऐ, ओत्थै यहोवा एह्यो हिब्रू नां ऐ जेहड़ा अंग्रेजी शब्द प्रभु दे थल्ले ऐ।

“प्रभु” — **H113 adown** — प्रभु; मालिक; धणी; राज करने आळा
भजन 110:1 मां, अदोन दा रूप “मेरा प्रभु” पढ़ेआ जांदा। अदोन यहोवा थमां भिन्न इक हिब्रू शब्द ऐ, जेकी उस आयत मां दाऊदे रे प्रभु गेरा गल्ल करा दा ऐ।

SOURCES & CREDITS

Scripture: Baghlayani Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).